



हल्द्वानी। सावधान हो जाइए। बाजार में सजने संवरने का सामान भी नकली आ गया है। पुलिस ने बनभूलपुरा के लाइन नंबर एक में दो दुकानों में छापा मारकर करीब आठ लाख रुपये का नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया। दुकानें सीलकर दो दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। दोनों दुकानदार नामी कंपनियों के उत्पादों के नाम पर नकली माल बेच रहे थे।

सीओ शांतनु पाराशर ने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के प्रतिनिधि ने शिकायत की थी कि शहर की दुकानों में उनकी कंपनी का नकली माल बेचा जा रहा है। सीओ ने इस मामले में फाइनेंसियल टास्क फोर्स की टीमों गठित कीं। पुलिस टीमों ने चिह्नित की गई लाइन नंबर एक स्थित इरफान कादरी कॉस्मेटिक एंड बैंगल स्टोर और मून पैलेस कॉस्मेटिक की दुकान में एक साथ छापा मारा। छापे के दौरान लक्मे कंपनी की नकली क्रीम, पाउडर, नेलपॉलिश, शैंपू, आईलाइनर सहित 1200 से अधिक नग बरामद किए। दोनों दुकानों से पांच कट्टों में भरा सामान कब्जे में ले लिया गया है। पूछताछ के दौरान इरफान कादरी दुकान के दुकानदार जुनैद ने बताया कि उसका मकान रुद्रपुर खेड़ा में है। नौ महीने पहले उसने यहां दुकान खोली थी। रुद्रपुर में भी उसकी दुकान चल रही है। उसे भरोसा नहीं था ऐसा माल निकलेगा। नायब तहसीलदार हरीश बुद्धिस्थ ने दोनों दुकानों को सील कर दिया है। सीओ का कहना है कि पुलिस इस मामले में धारा 420 और 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। कंपनी के प्रतिनिधि विपिन नागर और प्रभात भी इस मौके पर मौजूद रहे।

खतरनाक हो सकता है नकली सामान

हल्द्वानी। सीओ ने कहा कि खरीदारी से पहले महिलाओं को सामान का बैच मार्क, एक्सपाइरी डेट, फर्म की स्पेलिंग, होलोग्राम और पैकिंग की जांच कर लेनी चाहिए। नकली सामान त्वचा के लिए खतरनाक हो सकता है।

पहाड़ भेजा जाता है नकली सामान

हल्द्वानी। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को बताया कि रुद्रपुर और हल्द्वानी से काफी मात्रा में नकली माल पहाड़ के जिलों में भेजा जाता है। ब्रांडेड कंपनियों का माल बेचने वाले दुकानदार इससे परेशान हैं। नकली माल की पैकिंग ऐसी बनाई जाती है कि आम ग्राहक को इस पर जरा भी शक नहीं होता।

Source: <https://www.amarujala.com/uttarakhand/nainital/fake-products-of-cosmetics-being-sold-in-the-market-haldwani-news-hld4469391108>